

अंतरिम राहत (1 सितंबर 2018 को प्रभावी)

अंतरिम राहत, समीक्षा या अपील प्रक्रिया के दौरान श्रमिकों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता होती है। यह *असाधारण परिस्थितियों* में प्रदान की जाती है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि कार्यकर्ता निर्णय लिए जाने की प्रतीक्षा करते समय जीवन के बुनियादी व्ययों को पूरा करने में वित्तीय रूप से सक्षम हो।

विवाद समाधान और निर्णय समीक्षा निकाय (डीआरडीआरबी) या अपील आयोग, अंतरिम राहत के लिए अनुरोध को मंजूरी देने का निर्णय लेगा। अंतरिम राहत के अनुरोधों को समीक्षा या अपील के तहत इस मुद्दे से अलग और निष्पक्ष रूप से संबोधित किया जाता है। यह नया कानून 1 सितंबर 2018 को प्रभावी है और 1 सितंबर, 2018 को या उसके बाद प्राप्त समीक्षा या अपील के अनुरोध पर लागू होता है।

मेरे पास एक निर्णय है जो समीक्षा या अपील के अधीन है। अंतरिम राहत के लिए योग्य होने के लिए मुझे किस मापदंड को पूरा करने की आवश्यकता है?

यदि आप निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो आप अंतरिम राहत के लिए योग्य हो सकते हैं:

- आपके पास एक बहस करने लायक मामला है। इसका मतलब है कि प्रस्तुत किए गए सबूत व्यावहारिक हैं और, यदि निर्णयकर्ता द्वारा स्वीकार किए जाते हैं तो, समीक्षा या अपील के तहत निर्णय को काफी प्रभावित कर सकते हैं; तथा
- समीक्षा या अपील के तहत निर्णय, \$500 से अधिक की राशि के वर्तमान मजदूरी हानि लाभों की पात्रता को प्रभावित करता है; तथा
- आप या आपके पति/साथी किसी अन्य वित्तीय सहायता के लिए योग्य नहीं हैं (उदाहरण के लिए, रोजगार बीमा, अंपंगता लाभों के अन्य रूप); तथा,
- अंतरिम राहत के बिना, आप और आपका परिवार:
 - ऐसी स्थिति में रखा जाएगा जहां आप भोजन, कपड़े और आश्रय जैसे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का वहन नहीं कर सकते, या
 - परिसंपत्तियों की संभावित जल्दी या अधिग्रहण (उदाहरण के लिए, आपके परिवार के घर) का सामना करेगा।

मैं अंतरिम राहत कैसे प्राप्त करूं?

समीक्षा या अपील के लिए पहला कदम अपना औपचारिक अनुरोध जमा करना है। आप [ऑनलाइन फॉर्म](#) प्राप्त कर ऐसा कर सकते हैं या आप 1-866-922-9221 पर हमारे टोल-फ्री नंबर पर कॉल करके कागज़ी संस्करण का अनुरोध कर सकते हैं।

एक बार ऐसा कर लेने के बाद, आप अंतरिम राहत का आवेदन करने के लिए [फॉर्म GO41W](#) पूरा करेंगे। फॉर्म प्रिंट करें और पूरा करें और इसे हमें भेजें।

मुझे अपने आवेदन के साथ किस तरह के दस्तावेज भेजने की ज़रूरत है?

ऐसे दस्तावेजों के उदाहरण निम्नलिखित हैं जो हमें मानदंडों को पूरा करने के आकलन में सहायता करेंगे:

- नियोक्ता या निजी कवरेज से किसी अन्य बीमा प्रदाता से अस्वीकार पत्र।
- कनाडा सरकार सेवाओं और/या स्थानीय सेवाओं से अस्वीकार पत्र जो उपलब्ध हो सकती हैं।
- आपके वाले पते पर रहने वाले पति/साथी से पत्र, यह बताते हुए कि उसकी आय मूलभूत आवश्यकताओं को प्रदान करने के लिए मासिक आवश्यकताओं का समर्थन नहीं करेगी।
- पिछले देय बिल।
- परिसंपत्तियों की संभावित जल्दी का समर्थन करने वाले लेनदारों के पत्र।
- बेदखली के नोटिस।
- ज़रूरी परिस्थितियों की पुष्टि करने वाली तीसरी पार्टी से प्राप्त दस्तावेजों के अन्य रूप।

क्या मेरे नियोक्ता को पता चलेगा कि मैंने अंतरिम राहत के लिए आवेदन किया है?

आपके नियोक्ता को सूचित नहीं किया जाएगा कि आपने अंतरिम राहत के लिए आवेदन किया है। हालांकि, अगर अंतरिम राहत मंजूरी की जाती है, तो आपके नियोक्ता को यह सूचित करते हुए एक संक्षिप्त पत्र भेजा जाएगा कि आपको अंतरिम राहत प्राप्त हो रही है और यह कि यह दावों की लागतों और उनके खाते को प्रभावित नहीं करेगा। अंतरिम राहत देने के फैसले का विवरण आपके नियोक्ता को नहीं दिया जाएगा।

यदि मेरा आवेदन सफल होता है, तो मुझे कितनी राशि में अंतरिम राहत मिल सकती है?

यदि आपका आवेदन सफल है, तो डब्ल्यूसीबी आपको निम्न के आधार पर भुगतान करेगा:

- आपकी वार्षिक सकल कमाई, या
- अल्बर्टा की न्यूनतम मजदूरी में पूर्णकालिक रोजगार के बराबर कमाई।

किसी भी मजदूरी हानि के लाभ या रोजगार आय जो आप प्राप्त कर सकते हैं, की अंतरिम राहत राशि से कटौती की जाएगी।

मुझे अंतरिम राहत कब तक मिलती रहेगी?

एक बार अंतरिम राहत के अनुमोदित हो जाने पर, अंतरिम राहत के आपके आवेदन की तारीख से तब तक भुगतान किया जाता है जब तक अपील स्तर (DRDRB या अपील कमीशन) पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता। हालांकि, अगर समीक्षा या अपील अवधि में किसी भी समय, आप अब शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, तो इसे बंद कर दिया जाएगा।

मुझे अधिक जानकारी कहां से मिल सकती है?

आपको [नीति 01-10](#) में अधिक जानकारी मिल जाएगी। याद रखें, यह 1 सितंबर, 2018 से प्रभावी है और 1 सितंबर, 2018 को या उसके बाद प्राप्त समीक्षा या अपील के अनुरोध पर लागू होती है। बोर्ड के अनुरोध और आपकी व्यक्तिगत जानकारी के प्रबंधन के बारे में जानकारी के लिए, [नीति 01-02, भाग 1](#) देखें।

कोई सवाल हैं? 1-866-922-9221 पर हमसे टोल-फ्री संपर्क करें।

